


“

We're doubling down on execution. BFI has launched the India Reimagined Fellowship of USD 300,000 (~INR 2.5 crores) to bring the world's top scientific minds into Indian institutions to solve real challenges. We have also partnered with UNDP to kick off a powerful One Health pilot to future-proof public health systems, and have partnered with Venture Center to help Indian health-tech startups scale globally. Through the BFI-YNOS Platform, we're making biomedical innovation data and funding intel directly accessible to founders and innovators who are ready to build. It's all part of the same mission: back serious builders solving hard problems for India and the world.

”



Mr. Sandeep Nailwal , Founder, BFI; Co-Founder & CEO, Polygon Foundation; Co-Founder, Sentient AI

Newly Launched



India Reimagined Fellowship

Blockchain For Impact (BFI) has launched 'India Reimagined Fellowship', a prestigious global program aimed at bringing world-class scientific and professional talent to India to tackle critical challenges in biomedical science and public health. The fellowship is designed to empower researchers, entrepreneurs, clinicians, and innovators to build sustainable "impact engines" that address pressing healthcare challenges in India.

- Grant Amount:** USD 300,000 (~INR 2.5 crores) per fellow.
- Number of Fellowships Available:** 3 (in this cycle). 1 institute can nominate only 1 fellow.
- Deadline:** January 31, 2026.

[For More Information](#)

NEW PARTNERSHIPS




BFI is collaborating with UNDP to pilot a One Health approach in two Indian states. This initiative brings together human, animal, and environmental health sectors to detect threats early, respond collectively, and build long-term system resilience. The goal is to create scalable, coordinated models that can tackle future health challenges more effectively.



BFI has partnered with Venture Center to support the Leap Global Accelerator Program, a national initiative designed to help Indian healthcare startups go global. Backed by DST-NIDHI, the program offers expert mentorship and strategic resources to help founders scale their innovations and tap into global markets.

Round Table With Biomedical Startups

BFI hosted a focused session with early-stage health-tech and biomedical startups to better understand the real-world challenges innovators face on the ground. Mr. Sandeep Nailwal engaged directly with the founders to hear their perspectives, identify ecosystem gaps, and ensure BFI's efforts are aligned with the vision of a Viksit Bharat.



BFI is coming up with the next episode of Science. Unblocked, featuring prominent experts from the field of biomedical incubation, Dr. Nikhil Agarwal, MD & CEO, FITT, IIT Delhi, and Dr. Premnath Venugopalan, Founding Director, Venture Center. The podcast is hosted by Dr. Gaurav Singh, CEO of BFI.

The episode dives into India's evolving biomedical innovation landscape — discussing sustainable technology reuse, market-driven science, entrepreneurial mindset, and the need to transform from a talent-exporting to a technology-creating nation.

What's New With BFI

Struggling to find the right investor?

UNABLE TO SCALE?

Lost navigating the market alone?



BFI x ynos

Introducing the **BFI-YNOS** Platform: Your all-in-one solution to find funding, connect with investors, discover incubators, and access vital market insights.

BFI-YNOS is offering valuable subscriptions to this powerful platform for **biomedical innovators**.

REGISTER NOW

The ultimate directory for biomedical startups



BFI-YNOS Platform

BFI-YNOS Platform is a data-driven tool that helps biomedical founders access grants, find investors, compare incubators, and gain market and IP insights. Open to BFI-linked founders, researchers, and ecosystem enablers, access is via the Interconnect App.


[For More Information](#)

Founder's Spotlight:

Mr. Sandeep Nailwal

Sandeep Nailwal, Founder of Blockchain for Impact and CEO of Polygon Foundation, has been named in the prestigious The Economic Times 40 Under Forty list for 2025.

[For More Information](#)




BFI's Journey So Far!

Impact Numbers To Date – BFI BIOME



30

Research Institute



25

Medical College




55

Startups




45

NGOS



21


Incubators



400+


Participants

IN MEDIA



Mint

Sandeep Nailwal Of Polygon Labs Is Building The Future Of Web3, One Block At A Time



India Today

BFI's Interconnect Fellowship Supports Young Meditech Entrepreneurs; Sandeep Nailwal To Mentor Startups, Tackle Lab-To-Market Challenges



Amar Ujala

India's Breakthrough In Anti-Snake Venom Testing



Aaj Tak

Interaction With BFI Partners And Stakeholders At I3 Summit - Vimarsh 2025

